

**OR(अथवा)**

Find the Mean, S.D. and coefficient of S.D. of the following table

class	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80
Frequency	6	8	15	7	3	0	1

निम्नांकित तालिका का माध्य, मानक विचलन और मानक विचलन का गुणांक ज्ञात करें

वर्ग	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80
बारंबारता	6	8	15	7	3	0	1

10. Prove that

$$(1 + i)^n + (1 - i)^n = 2^{\frac{n}{2}+1} \cdot \cos \frac{n\pi}{4}$$

6

सिद्ध करें कि

$$(1 + i)^n + (1 - i)^n = 2^{\frac{n}{2}+1} \cdot \cos \frac{n\pi}{4}$$

**OR(अथवा)**

If  $\cos(A+iB) = x+iy$ , show that

$$(i) \quad \frac{x^2}{\cos^2 A} - \frac{y^2}{\sin^2 A} = 1$$

**2019(Odd)**

Time : 3Hrs.

Sem - I & II  
Engg. Math.

**Full Marks : 70**

**Pass Marks : 28**

Answer all 20 questions from **Group A**, each question carries 1 marks.

ग्रुप-A से सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक है।

Answer all Five questions from **Group B**, each question carries 4 marks.

ग्रुप-B से सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 4 अंक है।

Answer all Five questions from **Group C**, each question carries 6 marks.

ग्रुप-C से सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 6 अंक है।

All parts of a question must be answered at one place in sequence, otherwise they may not be evaluated.

एक प्रश्न के सभी अंशों का उत्तर एक ही जगह (लगातार क्रम में) होना चाहिए, अन्यथा वे जाँचे नहीं जा सकते हैं।

The figure in right hand margin indicate marks.  
दाँईं पार्श्व के अंक पूर्णांक के सूचक हैं।

- |    |   |                           |                  |  |   |
|----|---|---------------------------|------------------|--|---|
| 9  | Find the median and mode of the following frequency distribution.   | P = $\frac{N}{2}$ th term | (a) [0, 2]       | The domain of the function $\frac{(1-x)(x-2)}{1}$ is | (d) None of these                       |
| 10 | In the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ , prove that | (b) ] 1, 2 [              | (b) ] 0, 2 [     | (b) ] 1, 2 [   | (b) ] 1, 2 [                            |
| 11 | If $f(x) = \sin^{-1}(2x+1)$ is                                      | (c) [1, 2]                | (c) [1, 2]       | (c) [- $\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$ ]              | (c) [- $\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$ ] |
| 12 | The range of the function $f(x) = \sin^{-1}(2x+1)$ is               | (d) All of these          | (d) All of these |  |   |

यदि  $y = e^{a\cos^{-1}x}$ , prove that

$$(1-x^2) \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} - a^2y = 0$$

**OR(अथवा)**

The rate of increase of the perimeter varies inversely as the radius, if the area of the circle increases at a uniform rate. Prove it.

यदि किसी वृत का क्षेत्रफल समरूप दर से बढ़ता है, तो सिद्ध करें कि उसके परिमाप की वृद्धि की दर, उसकी त्रिज्या के प्रतीप (inverse) विचरण करती है

8. Prove that the maximum value of  $(\frac{1}{x})^x$  is  $e^{1/e}$

सिद्ध करें कि  $(\frac{1}{x})^x$  का महत्तम मान  $e^{1/e}$  है। **6**

**OR(अथवा)**

(ii) फलन  $f(x) = \sin^{-1}(2x+1)$  का परिसर है  
(अ)  $[0, \pi]$

(ब)  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

(स)  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

(द) इनमें से कोई नहीं

(iii) If  $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$  then the value of  $f(\tan \theta)$  is  
(a)  $\text{Sec}^2 \theta$   
(b)  $\text{Cos}^2 \theta$   
(c)  $\text{Sin}^2 \theta$   
(d) None of these

(iii) यदि  $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$  तब  $f(\tan \theta)$  का मान है  
(अ)  $\text{Sec}^2 \theta$   
(ब)  $\text{Cos}^2 \theta$   
(स)  $\text{Sin}^2 \theta$   
(द) इनमें से कोई नहीं

(iv) The value of  $\lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{\sin 5x}{\tan 3x} \right]$  is  
(a)  $\frac{3}{5}$   
(b)  $\frac{5}{3}$   
(c) 1  
(d) None of these

9

$$(1-x^2) \frac{dy}{dx} - x \frac{dx}{dy} - a^2 y = 0$$

7. If  $y = e^{\arccos^{-1}x}$ , prove that

$$6x^5 = 30$$

Answer all Five Questions.

## GROUP - C

(e)  $\int_{\pi/2}^{\pi} \sin^2 x dx$ 

$$\left( \frac{5}{4} \right)$$

$$\left( \frac{1}{3} \right)$$

$$\left( \frac{7}{3} \right)$$

$$(v) \quad \text{Let } \int_{-\infty}^{\infty} \left[ \frac{x^2 + 7x + 5}{x^2 + 3x + 4} \right] dt \text{ find it is }$$

(d) None of these

$$\left( \frac{5}{4} \right)$$

$$(b) 1$$

$$\left( \frac{7}{3} \right)$$

$$(v) \quad \text{The value of } \int_{-\infty}^{\infty} \left[ \frac{x^2 + 7x + 5}{x^2 + 3x + 4} \right] dx \text{ is }$$

(e)  $\int_{\pi/2}^{\pi} \sin^2 x dx$ 

$$\left( \frac{5}{4} \right)$$

$$\left( \frac{5}{3} \right)$$

$$\left( \frac{5}{3} \right)$$

$$(iv) \quad \text{Let } \int_{0}^{\pi/3} \frac{\sin 3x}{\tan 3x} dx \text{ find it is }$$

(f)  $\int_{0}^{\pi/2} \sin x dx$   
 To find a root of the equation  $x^3 - 2x - 5 = 0$  by bisection method in the interval  $(2, 3)$

[Three iterations]

Find a real root of the equation  $x^3 - 2x - 5 = 0$  by bisection method in the interval  $(2, 3)$

5. A bag contains 4 white and 2 black balls. Another contains 3 white and 5 black balls. If one ball is drawn from each bag, find the probability that one is white and one is black.

4

एक थैले में 4 उजली तथा 2 काली गेंद हैं। दुसरे में 3 उजली तथा 5 काली गेंदें हैं। यदि थैले से एक-एक गेंद निकाली जाती है तो एक उजली और एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है?

### OR(अथवा)

If from a pack of 52 cards two are drawn at random. What is the probability that they will be both spade or heart or club?

यदि 52 पत्ता के ताश की गड्ढी से दो पत्ता यदृच्छया में खींची जाती हैं। दोनों पत्ता को spade या heart या club होने की प्रायिकता क्या होगी?

6. Discuss Regular - Falsi method for the solution of numerical equation.

4

रेगुला-फाल्सी विधि से न्यूमेरिकल समीकरण को हल करने की व्याख्या करें।

- (vi) The differential coefficient of  $\tan^{-1} \sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}}$  is

(a) 2

(b)  $\frac{1}{2}$ 

(c) 1

(d) None of these

- (vi)  $\tan^{-1} \sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}}$  का अवकल गुणांक है

(अ) 2

(ब)  $\frac{1}{2}$ 

(स) 1

(द) इनमें से कोई नहीं

- (vii) The differential coefficient of  $\log(\cot x)$  is

(a)  $\sec x + \operatorname{cosec} x$ (b)  $\sec x \cdot \operatorname{cosec} x$ (c)  $-\sec x \cdot \operatorname{cosec} x$ 

(d) None of these

यहां तक कि लोगों का जुलूस ही लोगा है जिसे तेज़ी कि

**OR(उत्तर)**

$$\text{Find } \frac{dy}{dx} \text{ if } \tan x = \sin \{\cos(\tan x)\}$$

$$\text{Find } \frac{dy}{dx} \text{ when } y = \sin \{\cos(\tan x)\}$$

- (viii) The differential coefficient of  $\tan x$  with respect to  $\sin x$  is  
 (a)  $\sec^2 x$   
 (b)  $-\sec^2 x$   
 (c)  $\cos^2 x$   
 (d) None of these

(vii)  $\log(\cot x)$  कि उत्तर का जुलूस है

- (a)  $\sec x + \operatorname{cosec} x$   
 (b)  $\sec x \cdot \operatorname{cosec} x$   
 (c)  $-\sec x \cdot \operatorname{cosec} x$   
 (d)  $\frac{\sec x - \operatorname{cosec} x}{\sec x + \operatorname{cosec} x}$

- (viii)  $\tan x$  कि उत्तर का जुलूस है  
 (a)  $\sec^2 x$   
 (b)  $-\sec^2 x$   
 (c)  $\cos^2 x$   
 (d) None of these

(ix) If  $x = a(\theta + \sin \theta)$ ,  $y = a(1 - \cos \theta)$  then  $\frac{dy}{dx}$  is equal to-----

- (a)  $\tan \theta$   
 (b)  $\tan \frac{\theta}{2}$   
 (c)  $\cot \theta$   
 (d) None of these

$$\text{Find } \frac{dy}{dx} \text{ if } x^2 y = (x-y)^2$$

$$\text{Find } \frac{dy}{dx} \text{ when } x^2 y^2 = (x-y)^2$$

**OR(उत्तर)**

$$\text{Find } \frac{dy}{dx} \text{ if } x^2 y = (x-y)^2$$

4.

$$\text{Find } \frac{dy}{dx} \text{ when } x^2 y = y^2$$

- (d) None of these

- (c)  $\cot \theta$

- (b)  $\tan \frac{\theta}{2}$

- (a)  $\tan \theta$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

- (d) None of these

- (c)  $\cos^2 x$

- (b)  $-\sec^2 x$

- (a)  $\sec^2 x$

**GROUP B**Answer all **Five** Questions.

$$4 \times 5 = 20$$

सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।

2. Evaluate

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1^2}{n^3} + \frac{2^2}{n^3} + \frac{3^2}{n^3} + \frac{4^2}{n^3} + \dots + \frac{n^2}{n^3} \right]$$

मान निकालो

4

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1^2}{n^3} + \frac{2^2}{n^3} + \frac{3^2}{n^3} + \frac{4^2}{n^3} + \dots + \frac{n^2}{n^3} \right]$$

**OR(अथवा)**

Evaluate

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \left[ \frac{x \sin \alpha - \alpha \sin x}{x - \alpha} \right]$$

मान निकालो

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \left[ \frac{x \sin \alpha - \alpha \sin x}{x - \alpha} \right]$$

3. Find the differential coefficient of  $\log_a x$  (logarithm of  $x$  to the base of  $a$ ) with respect to  $x$  from first principle.

4

(ix) यदि  $x = a(\theta + \sin\theta)$ ,  $y = a(1 - \cos\theta)$  तब  $\frac{dy}{dx}$  का मान..... है।(a)  $\tan\theta$ (b)  $\tan \frac{\theta}{2}$ (c)  $\cot\theta$ 

(d) इनमें से कोई नहीं

(x) The differential coefficient of  $(\sin^{-1}x + \cos^{-1}x)$  with respect to  $x$  is -----(a)  $\frac{\pi}{2}$ 

(b) 1

(c) 0

(d) None of these

(x)  $(\sin^{-1}x + \cos^{-1}x)$  का अवकल गुणांक  $x$  के सापेक्ष है(अ)  $\frac{\pi}{2}$ 

(ब) 1

(स) 0

(द) इनमें से कोई नहीं

- (xi) Minimum value of  $(\sin x + \cos x)$  is  
 (a) 0  
 (b)  $-\sqrt{2}$   
 (c) 2  
 (d) None of these
- (xii)  $\sin x + \cos x$  diff  $\frac{dy}{dx} = \cos x - \sin x$   
 (a) 0  
 (b)  $-\sqrt{2}$   
 (c) 2  
 (d) None of these
- (xiii) If  $y = \sin x + \cos x$ , the value of  $x$  in order that  $\frac{dy}{dx}$  may vanish is  
 (a) 1  
 (b) 12  
 (c) 14  
 (d) None of these
- (xiv) If  $y = x \log x$ , the value of  $x$  in order that  $\frac{dy}{dx}$  is zero is  
 (a) 1  
 (b) 0  
 (c)  $\frac{1}{e}$   
 (d) None of these
- (xv)  $\int x^2 dx$   
 (a)  $\frac{x^3}{3}$   
 (b)  $\frac{x^3}{3} + C$   
 (c)  $\frac{x^3}{3} - C$   
 (d)  $x^3 + C$
- (xx) If the arithmetic mean of the variables 1, 3, 5, 6, x, 10 is 6 then the value of x is.....  
 (a) 11  
 (b) 12  
 (c) 14  
 (d) None of these
- (xxi)  $\int x^2 dx$   
 (a)  $\frac{x^3}{3}$   
 (b)  $\frac{x^3}{3} + C$   
 (c)  $\frac{x^3}{3} - C$   
 (d)  $x^3 + C$
- (xxii) If  $y = x \log x$ ,  $\frac{dy}{dx}$  at  $x = 1$  is  
 (a) 1  
 (b) 0  
 (c)  $\frac{1}{e}$   
 (d) None of these
- (xxiii)  $\int x^2 dx$   
 (a)  $\frac{x^3}{3}$   
 (b)  $\frac{x^3}{3} + C$   
 (c)  $\frac{x^3}{3} - C$   
 (d)  $x^3 + C$

(xvii) किसी घटना की प्रायिकता  $\frac{3}{7}$  है तो इसका प्रायिकता संयोगानुपात घटना.....

- (अ) 3:4
- (ब) 4:3
- (स) 3:7
- (द) इनमें से कोई नहीं

(xviii) Which is correct?

- (a) Mean + Mode = 3 (Mean + Median)
- (b) Mean - Mode = 3 (Mean - Median)
- (c) Mean - Mode = 3 (Median - Mean)
- (d) None of these

(xviii) कौन सही है?

- (अ) माध्य + बहुलक = 3(माध्य + माध्यिका)
- (ब) माध्य - बहुलक = 3(माध्य - माध्यिका)
- (स) माध्य - बहुलक = 3(माध्यिका - माध्य)
- (द) इनमें से कोई नहीं

(xix) The medium of the data 5,2,8,3,7,4 is

- (a) 3.5
- (b) 5.5
- (c) 4.5
- (d) None of these

(xiii) If  $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{200} = x+iy$  then

- (a) x = 0, y = 1
- (b) x = 1, y = 0
- (c) x = 0, y = 0
- (d) None of these

(xiii) यदि  $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{200} = x+iy$  तब

- (अ) x = 0, y = 1
- (ब) x = 1, y = 0
- (स) x = 0, y = 0
- (द) इनमें से कोई नहीं

(xiv) Imaginary part of  $\cosh(x+iy)$  is

- (a)  $\sinh x \cdot \sin y$
- (b)  $\cosh x \cdot \cos y$
- (c)  $-\sinh x \cdot \sin y$
- (d) None of these

(xvi)	$\cosh(x+iy) = \cosh x \cos y + i \sinh x \sin y$	NT12008	NT12008	1602102/1601202/P1602102
(xvii)	A bag contains 3 white and 2 black balls.	(a) $\frac{2}{5}$	(b) $\frac{3}{5}$	(c) $\cosh x \cos y$
(xviii)	The probability of drawing white ball is than 2 when a die is thrown.	(d) None of these	(a) $\frac{1}{5}$	(xv)
(xix)	The probability of getting a number greater than 2 when a die is thrown.	(a) None of these	(a) $\frac{1}{2}$	(xvi)
(xx)	If $P(\text{Event A}) = 2$ , then odd against the event is -----.	(a) $\frac{1}{3}$	(b) $\frac{2}{3}$	(c) $\frac{3}{4}$
(xxi)	The probability of an event is $\frac{7}{3}$ , then odd against the event is -----.	(a) $3:4$	(b) $4:3$	(c) $3:7$
(xxii)	The probability of an event is $\frac{7}{3}$ , then odd against the event is -----.	(a) $3:4$	(b) $4:3$	(c) $3:7$

(xviii) The probability of an event is  $\frac{7}{3}$ , then odd  
against the event is -----.

(xix) If  $P(\text{Event A}) = 2$ , then odd  
against the event is -----.

(xx) If  $P(\text{Event A}) = 2$ , then odd  
against the event is -----.

(xxi) The probability of drawing white ball is  
than 2 when a die is thrown.

(xxii) If  $P(\text{Event A}) = 2$ , then odd  
against the event is -----.

(xxiii) None of these

(xv)

(a)  $\frac{1}{3}$

(b)  $\frac{2}{3}$

(c)  $\frac{3}{4}$

(d)  $\frac{2}{3}$

(e)  $\frac{3}{4}$

(f)  $\frac{2}{3}$

(g)  $\frac{1}{3}$

(h)  $\frac{3}{7}$

(i)  $\frac{1}{2}$

$$(ii) \frac{x^2}{\cosh^2 B} + \frac{y^2}{\sinh^2 B} = 1$$

यदि  $\cos(A+iB) = x+iy$ , दिखालाएँ कि

$$(i) \frac{x^2}{\cos^2 A} - \frac{y^2}{\sin^2 A} = 1$$

$$(ii) \frac{x^2}{\cosh^2 B} + \frac{y^2}{\sinh^2 B} = 1$$

11. Solve the following equations by Gauss Elimination method.

6

$$x + y + z = 6, \quad 2x - 3y + 3z = 5, \quad 3x + 2y - z = 4$$

निम्नांकित समीकरणों को गौस एलिमिनेशन विधि से हल करें।

$$x + y + z = 6, \quad 2x - 3y + 3z = 5, \quad 3x + 2y - z = 4$$

**OR(अथवा)**

- Solve the following equations by Jacobi's iteration method.

$$(ii) \frac{x^2}{\cosh^2 B} + \frac{y^2}{\sinh^2 B} = 1$$

यदि  $\cos(A+iB) = x+iy$ , दिखालाएँ कि

$$(i) \frac{x^2}{\cos^2 A} - \frac{y^2}{\sin^2 A} = 1$$

$$(ii) \frac{x^2}{\cosh^2 B} + \frac{y^2}{\sinh^2 B} = 1$$

11. Solve the following equations by Gauss Elimination method.

6

$$x + y + z = 6, \quad 2x - 3y + 3z = 5, \quad 3x + 2y - z = 4$$

निम्नांकित समीकरणों को गौस एलिमिनेशन विधि से हल करें।

$$x + y + z = 6, \quad 2x - 3y + 3z = 5, \quad 3x + 2y - z = 4$$

**OR(अथवा)**

- Solve the following equations by Jacobi's iteration method.

**P.T.O**

\* \* \*

$$10x + y + 2z = 13, 3x + 10y + z = 14,$$

Հ Յ Ա Բ Ի Լ Ա Շ Ե Ր Ք Վ Պ Վ Բ Լ Վ Փ Վ Ա Ռ Վ Ա Վ Փ Վ Ա Ր Ե Ւ

$$10x + y + 2z = 13, 3x + 10y + z = 14,$$

\* \* \*

$$10x + y + 2z = 13, \quad 3x + 10y + z = 14,$$

Հ Յ Ա Բ Ի Ե Ա Շ Ե Ր Ք Լ Վ Պ Ը Ը Վ Ո Ն Վ Ո Ւ Խ Ա Ե Վ Ո Ւ Ե Վ

$$10x + y + 2z = 13, 3x + 10y + z = 14,$$